



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2009/माघ 15, 1930

No. 53]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2009/MAGHA 15, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2009

'6.90 प्रतिशत तेल विपणन कम्पनियों के भारत सरकार विशेष बांड, 2026' का निर्गम

फा. सं. 4(15)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008.—भारत सरकार एतद्वारा 4 फरवरी, 2009 को कुल 21,942 करोड़ रुपए (अंकित) की कुल राशि के लिए '6.90 प्रतिशत तेल विपणन कम्पनियों के भारत सरकार विशेष बांड, 2026' (जिन्हें इसके बाद संक्षिप्त रूप में "विशेष बांड" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

1. विशेष बांड में अभिदान की पात्रता और अभिदान की सीमा

यहां अनुबन्ध-1 में यथा उल्लिखित कंपनियां ही विशेष बांडों में अभिदान की पात्र होंगी और विशेष बांडों में उनका अभिदान उक्त अनुबन्ध-1 में उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की सीमा तक सीमित होगा। उक्त अनुबन्ध में यथाउल्लिखित कम्पनियों को छोड़कर कोई बैंक, कंपनी, निगम अथवा अन्य कोई निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति विशेष बांडों में अभिदान के लिए पात्र नहीं होगा।

2. मूल्य

विशेष बांड पात्र कंपनियों द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार राशि के लिए सममूल्य पर किए गए आवेदन पर जारी किए जाएंगे। विशेष बांड न्यूनतम 10,000 रुपए (अंकित) की राशि और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में जारी किए जाएंगे।

3. आवेदन पत्र

विशेष बांड पात्र कंपनियों से अनुबन्ध-II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन पर जारी किए जाएंगे।

4. प्रतिभूति का स्वरूप

विशेष बांड स्टॉक के रूप में अर्थात् 'स्टॉक प्रमाण पत्रों' अथवा सहायक सामान्य बही लेखाधारक के साथ धारित संघटक सहायक सामान्य बही लेखा में क्रेडिट द्वारा जारी किए जाएंगे।

5. कार्यकाल का प्रारम्भ और वापसी अदायगी की तारीख

विशेष बांड का कार्यकाल 4 फरवरी, 2009 से शुरू होगा। विशेष बांड पर ब्याज उनकी अवधि की प्रारम्भ की तारीख से उपचित होगा। विशेष बांडों की वापसी अदायगी सममूल्य पर 4 फरवरी, 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में की जाएगी।

6. ब्याज

विशेष बांड पर 6.90 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज का हिसाब विशेष बांडों की अवधि प्रारम्भ होने की तारीख से लगाया जाएगा और यह भुगतान विशेष बांड की परिपक्वता तक अर्द्धवार्षिक आधार पर 4 अगस्त और 4 फरवरी को देय होगा।

विशेष बांड पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के फोर्ट, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान ब्याज की राशि को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा।

7. हस्तांतरणीयता

(i) इस अधिसूचना के पैरा 4 के प्रावधानों के अधीन, धारक द्वारा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत

बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के अंतर्गत विशेष बांड का नवीकरण, उप-विभाजन, समेकन, रूपान्तरण और अंतरण किया जा सकता है।

- (ii) इस अधिसूचना में ऊपर पैरा 1 में दिए गए कथन के बावजूद, अभिदानकर्ताओं द्वारा विशेष बांडों को बैंकों, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूति का अन्तरिती भी उन्हें उसी तरीके से धारण तथा अंतरण करने का पात्र होगा।

8. सांविधिक प्रावधान

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसकी व्यवस्था इस अधिसूचना के तहत नहीं की गई है, विशेष बांड सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और उसके अधीन बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

9. कर कानून की प्रयोज्यता

विशेष बांड में निवेश का मूल्य और उस पर देय ब्याज समय-समय पर लागू कर कानूनों के उपबंधों द्वारा शासित किए जाएंगे।

10. बांडों की पात्रता

बैंकों तथा बीमा कंपनियों द्वारा विशेष बांडों में निवेश को सरकारी प्रतिभूतियों में उनकी सांविधिक अपेक्षाओं के लिए पात्र निवेश नहीं माना जाएगा। लेकिन, बीमा कंपनियों द्वारा ऐसे निवेश को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के तहत यथा परिभाषित "अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ" की श्रेणी के तहत निवेश माना जाएगा। इसके अलावा, भविष्य निधियों, उपादान निधियों, अधिवर्षिता निधियों आदि द्वारा विशेष बांडों में निवेश को वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक आदेश के अधीन पात्र निवेश के रूप में माना जाएगा।

11. रिपो के लिए पात्रता

विशेष बाण्ड हस्तान्तरणीय होंगे और बाजार के तत्काल वायदा लेन-देन (रिपो) के लिए पात्र होंगे।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
एल. एम. वास, अपर सचिव

अनुबंध-I

पात्र कंपनियों की सूची तथा '6.90 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियों के भारत सरकार विशेष बांड, 2026' का आबंधन (करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	कंपनी का नाम	स्वीकृत बकाया राशि
1	2	3
1.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., (आईओसीएल)	11943.93
2.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., (एचपीसीएल)	4681.36
3.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., (बीपीसीएल)	5316.71
	जोड़	21942.00

अनुबंध-II

स्थान :

तिथि :

क्षेत्रीय निदेशक,
लोक ऋण कार्यालय,
भारतीय रिजर्व बैंक,
मुम्बई-400 001

विषय :—'6.90 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियों के भारत सरकार विशेष बांड, 2026'।

महोदय,

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या फा. 4(15)-डब्ल्यू एंड एम/2008, दिनांक 4 फरवरी, 2009 की शर्तों के अंतर्गत हमकरोड़ रुपए की समग्र राशि के शीर्षकांकित बांडों में अभिदान करने के पात्र हैं।

हमें विशेष बांडों को शासित करने वाली शर्तें स्वीकार्य हैं और हम आपसे हमारे पक्ष में बांडों को जारी करने का अनुरोध करते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

कार्यालय मुहर/स्टाम्प

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2009

Issue of '6.90 per cent Oil Marketing Companies' Government of India Special Bonds, 2026'

F.N. 4(15)-W&M/2008.—Government of India hereby notifies the issue of '6.90 per cent Oil Marketing Companies' Government of India Special Bonds, 2026', (hereinafter briefly described as "Special Bonds") for an aggregate amount of Rs. 21,942 crore (nominal) on February 4, 2009.

1. Eligibility for making subscription to the Special Bonds and limits of subscription

The companies as referred to in the Annex-I hereto shall be eligible to subscribe to the Special Bonds and their subscription to the Special Bonds shall be limited to the extent of the amount, as shown against their respective names in the said Annex -I. No other person including any bank, company, corporation or any other body, except the companies as referred to in the aforesaid Annex., shall be eligible to subscribe to the Special Bonds.

2. Price

The Special Bonds shall be issued on application at par for the amounts as per the application made by the eligible companies. The Special Bonds will be issued for a minimum amount of Rs. 10,000 (Nominal) and in multiples of Rs. 10,000 thereafter.

3. Application

The Special Bonds shall be issued on application as per proforma in Annex-II, from the eligible companies.

4. Form of Security

The Special Bonds will be issued in the form of stock i.e. 'Stock Certificates' or by credit to Constituent Subsidiary General Ledger account maintained with a Subsidiary General Ledger account holder.

5. Commencement of Tenure and Date of Repayment

The tenure of Special Bonds will commence from February 4, 2009. Interest on the Special Bonds will accrue from the date of commencement of tenure. The Special Bonds will be repaid at par on February 4, 2026 at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

6. Interest

The Special Bonds will bear interest at the rate of 6.90 per cent per annum. Interest will be reckoned from the date of commencement of tenure of the Special Bonds and will be payable halfyearly on August 4 and February 4 till maturity of the Special Bonds.

Interest on the Special Bonds will be payable at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Fort, Mumbai. Interest will be paid after rounding off the amount of interest to the nearest rupee.

7. Transferability

- (i) Subject to the provisions of paragraph 4 of the notification, the Special Bonds can be renewed, sub-divided, consolidated, converted and transferred by the holder in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder.
- (ii) Notwithstanding what is stated in paragraph 1 hereinabove, there will be no restriction on the transfer of the Special Bonds by the subscribers in favour of any other person including banks, corporation or any other body and the transferee of such security would also be entitled to hold and transfer the same in such manner.

8. Statutory Provisions

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Special Bonds shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder.

9. Applicability of Tax Law

The value of the investment in the Special Bonds and the interest payable thereon will be governed by the provisions of Tax Laws as applicable from time to time.

10. Eligibility of Bonds

The investment in the Special Bonds by the banks and insurance companies will not be reckoned as an eligible investment in Government securities for their statutory requirements. However, such investment by the insurance companies will be eligible to be reckoned as investment under "other Approved Securities" category as defined under Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000. Further, the investment by the Provident Funds, Gratuity Funds, Superannuation Funds, etc. in the Special Bonds will be treated as an eligible investment under the administrative order of the Ministry of Finance.

11. Eligibility for Repo

The Special Bonds will be transferable and eligible for market ready forward transactions (Repo).

By Order of the President of India

L. M. VAS, Addl. Secy.

Annex-I

List of eligible companies and allocation of '6.90 per cent Oil Marketing Companies' Government of India Special Bonds, 2026'

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Name of the Company	Admitted Outstanding
(1)	(2)	(3)
1.	Indian Oil Corporation Ltd., (IOCL)	11943.93
2.	Hindustan Petroleum Corporation Ltd., (HPCL)	4681.36
3.	Bharat Petroleum Corporation Ltd., (BPCL)	5316.71
Total		21942.00

Annex-II

Place:

Date:

The Regional Director,
Public Debt Office,
Reserve Bank of India,
Mumbai-400 001

Subject :—'6.90 per cent Oil Marketing Companies' Government of India Special Bonds, 2026'.

Sir,

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Notification F. No. 4(15)-W&M/2008, dated February 4, 2009, we are eligible to subscribe to the captioned bonds for an aggregate amount of Rs.

We accept the terms and conditions governing the Special Bonds and request you to issue the bonds in our favour.

Yours faithfully,

Signature :

Name :

Designation :

Office Seal/Stamp